

कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा ग्रामीण युवाओं हेतु मत्स्य पालन व्यवसाय प्रशिक्षण का आयोजन

कृषि विज्ञान केन्द्र, भाकृअप-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण के अन्तर्गत 22-25 अक्टूबर, 2018 के मध्य मत्स्य पालन व्यवसाय विषय पर चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मिश्रित मत्स्य पालन से कृषक अपनी आय दोगुनी कैसे करें विषय पर डा0 सुरेश चन्द्र, प्रधान वैज्ञानिक, शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय, भीमताल, नैनीताल द्वारा जानकारी दी गई। साथ ही आपने तालाब प्रबन्धन एवं मत्स्य बीमारियों की रोकथाम के सम्बन्धन में भी बताया। श्री अमित कुमार शुक्ला, मत्स्य



निरीक्षक मत्स्य विभाग बरेली द्वारा जनपद द्वारा मत्स्य पालन विकास सम्बन्धी योजनाओं की जानकारी दी गई। श्री दुर्गा दत्त शर्मा, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी ने एकीकृत मत्स्य पालन विषय पर व्याख्यान एवं जानकारी दी, तथा मो0 असिफ, प्रगतिशील कृषक ने मत्स्यपालन में प्राथमिक उपचार सम्बन्धी अपने अनुभव साझा किया। दिनांक 24.10.2018 को प्रशिक्षणार्थियों को पन्तनगर मत्स्य महाविद्यालय का भ्रमण कराया गया जहाँ पर फिश हैचरी, रिसाइक्लिंग एक्वाकल्चर, मछली फीड यूनिट, उत्पाद मूल्य संवर्धन आदि के सम्बन्ध में डा आशुतोष मिश्रा द्वारा व्याख्यान दिया गया। डा0 अखिलेश कुमार यादव,



मुख्य तकनीकी अधिकारी, राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, लखनऊ द्वारा मत्स्य पालन में जल की गुणवत्ता एवं आहार प्रबन्धन की जानकारी दी। प्रशिक्षणार्थियों को जागरूकता करने के उद्देश्य से उन्हें फसल अवशेष प्रबन्धन की जानकारी भी दी गई। प्रशिक्षणार्थियों को कृषि विज्ञान केन्द्र शैक्षणिक फार्म का भ्रमण भी कराया गया। समापन समारोह में कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रभारी डा0 बृजपाल सिंह ने सभी कृषकों से प्रशिक्षण पश्चात् मत्स्य पालन इकाई स्थापित करने का आह्वान किया। श्री दुर्गादत्त शर्मा, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी ने कार्यक्रम का आयोजन एवं संचालन किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सात जनपदों के 35 कृषकों एवं ग्रामीण युवकों ने भाग लिया।

